



Citizen's Duty on Indian Highways

She saw a woman lying on the road, bleeding from her head. The all-male group around her was hesitant to attend to her.

Glowing Protein

We can monitor changes in oxygen concentration continuously and in a wide area of the brain



4+ करोड़ परिवारजनों को मिला
फिर एक बार पक्का मकान
नियत सही तो नतीजे सही



कमल का बटन दबाएं **भाजपा को जिताएं**



चूरु में देवेन्द्र झांझड़िया के समर्थन में आयोजित विजय शंखनाद रैली में प्रधानमंत्री मोदी को चंदन की तलवार भेंट की गई। मंच पर प्रत्याशी देवेन्द्र झांझड़िया, मुख्यमंत्री भजनलाल, डॉ. सतीश प्रीनिया व अन्य वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं।

'नरेन्द्र दिल्ली से देवेन्द्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है, देवेन्द्र ने भारत का मान बढ़ाया है'

प्र.मंत्री ने चूरु से भाजपा प्रत्याशी देवेन्द्र झांझड़िया के समर्थन में सभा को संबोधित किया

चूरु, 5 अप्रैल (का.सं.)। शुरुआत को चूरु में देवेन्द्र झांझड़िया के समर्थन में हुई चुनावी सभा में मौजूद लगभग 50 हजार लोगों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ये है नया भारत, नया भारत घर में घुसकर मारता है और चुनौतियों को चुनौती देना हमारी मिट्टी की ताकत है।" मोदी ने कहा कि, हताशा और निराशा मोदी के पास ही नहीं फटक सकती। मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। पीएम मोदी ने कहा "नरेन्द्र दिल्ली से देवेन्द्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है।" उन्होंने कहा कि राजस्थान जो ठान लेता है, वो पत्थर की लकीर बन जाता है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए मोदी ने कहा, कितने ही झूठ फैला लो, मोदी डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपये मिले हैं और क्या-क्या होगा वो देखना अभी बाकी है। इंडी ने दस साल में भ्रष्टाचारियों से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने

- प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, देवेन्द्र झांझड़िया और मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं पहली बार उनसे मिला तो उनकी मां की बातें मेरे मन को छू गई थी।
- गौरतलब है कि, चूरु से भाजपा ने पैरालिम्पिक गोल्ड में स्वर्ण पद जीत चुके दिव्यांग खिलाड़ी देवेन्द्र झांझड़िया को प्रत्याशी बनाया है।
- प्र.मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी कहा, मेरी चिंता छोड़िए, मेरे हर कार्यक्रम में आने की जरूरत नहीं है, मैं छोटे कार्यकर्ता के बगल में भी बैठ जाऊंगा।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि, यह नया भारत है किसी से डरता नहीं है, घर में घुसकर मारता है।
- सभा में 50,000 लोगों की भीड़ देखी गई। सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संबोधित किया और कहा, अब राजस्थान में गैंगस्टर नहीं हैं।

कहा, नियत सही तो नतीजे सही। अब तक जो हुआ वो टेलर था। उन्होंने तीन तलाक पर कहा कि, यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है।

पर कुछ बोला तो कहीं राम-राम न हो जाए। मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कहा, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मेरे हर कार्यक्रम में बड़े नेताओं को आने की जरूरत नहीं है। मैं छोटे कार्यकर्ता के बगल में ही बैठ जाऊंगा। देवेन्द्र झांझड़िया और मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं जब पहली बार उनसे मिला तो उनकी मां की बातें मेरे मन को छू गईं। मुसीबतों से गुजारा करने वाली मां अपने बेटे को देश की सेवा के लिए प्रेरित करती है। देवेन्द्र ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, मैं चाहता हूँ कि, गरीब मां के बेटे का सपना पूरा हो। 26 फरवरी 2019 को मैं चूरु आया था उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था। चूरु की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, आज एक बार फिर मैं अपने उन भावों को दोहरा रहा हूँ कि, "सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिट्टे के दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अप्रैन्टिसशिप का अधिकार, एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी, अग्निपथ स्कीम की समाप्ति, आरक्षण के लिये 50 प्रतिशत सीमा की समाप्ति

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन चार वायदों के अलावा भी और कई सौगातें देने का वादा किया

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 अप्रैल। राइट टू अप्रैन्टिसशिप अर्थात् नौकरी की गारंटी के लिए प्रशिक्षण का अधिकार, एम.एस.पी. (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) की कानूनी गारंटी, अग्निपथ योजना को खत्म करना और अनुसूचित जाति जनजाति व ओ.बी.सी. के आरक्षण को 50 प्रतिशत सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन पारित करना कांग्रेस के अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उनमें से उपरोक्त महत्वपूर्ण वायदे हैं।

सोनिया, प्रियंका और खड़गे की आज जयपुर में जनसभा

जयपुर, 5 अप्रैल (का.सं.)। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा प्रियंका गांधी शनिवार को

विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली इस सभा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करने के साथ ही चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे।

जयपुर से राजस्थान के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। इस सभा में पार्टी के घोषणा पत्र "पत्र न्याय" को जगता के बीच लॉन्च किया जाएगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि, 30 लाख नौकरियों उपलब्ध करायेगी केन्द्रीय सरकार में।
- कांग्रेस ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिये, चाहे वे किसी जाति, जात या धर्म के हों, रोजगार व शिक्षा में आरक्षण देने का भी वादा किया घोषणा पत्र में।
- कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि, सत्ता में आते ही वो जम्मू-कश्मीर का पूर्ण प्रांत का "स्टेटस" पुनः स्थापित कर देगी तथा सेना में अग्निपथ स्कीम को रद्द कर, भर्ती की पुरानी व्यवस्था वापस लायेगी।
- कांग्रेस ने यह भी कहा कि, भारत जोड़ो यात्रा के पांच स्तम्भ, युवा, किसान, नारी, श्रमिक व हिस्सेदारी पर ही कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र व पच्चीस गारंटियाँ आधारित हैं।

चिदंबरम भी मौजूद थे, जो कि घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख थे। खड़गे ने कहा, यह घोषणा पत्र भारत के इतिहास में न्याय का दस्तावेज होगा। इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तम्भों, युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी से 25 गारंटियाँ उभरेगी। पार्टी ने कहा घोषणा पत्र की पूरी

थीम काम, धन और जनकल्याण पर आधारित है। घोषणा पत्र का शीर्षक न्याय पत्र है, जिसमें कहा गया है कि यह नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी यह सभी जातियों व समुदायों के लिए होगा। पार्टी ने केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तर पर स्वीकृत पर 30 लाख रिक्त पड़े पद भरने का वादा भी किया है और कहा कि राजस्थान मॉडल की तर्ज पर सभी की हैल्थकेयर के लिए 25 लाख रु. का कैशलेस बीमा करवाने की योजना अपनाई जाएगी। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन करने का वायदा भी किया। कांग्रेस जातिगत सर्वेक्षण कराने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सुभाष चन्द्र बोस भारत के प्रथम प्र.मंत्री थे, न कि, नेहरू'

मण्डी की संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रानौत के इस कथन ने पुनः उन्हें विवादों में उलझाया

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 अप्रैल। अनावश्यक विवाद खड़े करने के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रानाउत ने एक कार्यक्रम में यह कह कर सभी को हतप्रभ कर दिया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चन्द्र बोस थे। कंगना को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया है। इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो कहती हैं कि, पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैं आजादी कब मिली भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चन्द्र बोस कहां गए थे। इंटरव्यू लेने वाले ने बार बार कंगना को करेक्ट करने की कोशिश की पर वो

- सिने तारिका और अब भाजपा की प्रत्याशी रानौत ने एक बार पहले भी ऐसा ही चौंकाते वाला वक्तव्य दिया था कि, हिन्दुस्तान को वास्तविक स्वतंत्रता तब मिली जब 2014 में नरेन्द्र मोदी भारत के प्र.मंत्री बने।
- विपक्ष ने कंगना रानौत के इन कथनों के बाद कटाकों के सैंकड़ों बाण छोड़े। उदाहरण के लिए, तेलंगाना के पूर्व यु.मंत्री की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति ने कहा, "हम जानना चाहेंगे कि, कंगना जी ने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है?"

बार-बार यही कहती रही कि, नहीं आप पहले यह स्पष्ट कीजिए कि वो कहां थे। एक यूजर ने लिखा कि, "हाँ यह सही है कि सुभाष चन्द्र बोस अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।" किसी अन्य ने लिखा कि "मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मंडी के मतदाता अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें।" सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु तो भारत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चुनाव के बाद तय होगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा'

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 अप्रैल। कांग्रेस नेतृत्व वाली इण्डिया ब्लाॅक अगर लोक सभा चुनावों में बहुमत हासिल कर लेती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या कोई और। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (ए.आइ.सी.सी.) के मुख्यालय पर शुरुआत को कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में बोलते हुए, राहुल ने कहा, यह संघर्ष जैसा मीडिया प्रचार कर रहा है उससे ज्यादा करीबी होने वाला है। उन्होंने इण्डिया ब्लाॅक के जीतने की संभावना व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये चुनाव अलग तरह के होने वाले हैं, जिसमें एक तरफ लोकतंत्र और संविधान का विनाश करने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भारत ने विदेश जाकर 20 आतंकवादियों को खत्म किया'

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 अप्रैल। लोकसभा चुनाव की सरगमों चरम पर है, ब्रिटेन के गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी है पर उसके बारे में भाजपा द्वारा शिकायत किए जाने की संभावना नहीं के बराबर है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि, भारत सरकार ने विदेशी भूमि पर से आतंकवाद को समूल नष्ट करने की विस्तृत रणनीति के तहत पाकिस्तान में आतंकियों की हत्याएं करने का आदेश दिया था। बालाकोट की एयर स्ट्राइक पूर्ण होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक घोषणा में कहा था कि, "घर में घुस कर मारा।" प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद वर्ष 2019 के चुनावों में भगवा पार्टी की जीत का करिश्मा हुआ था। गार्जियन के इस ताजा लेख के प्रकाशन से इस बार भी प्रधानमंत्री की छवि व भाजपा को

लंदन के बहुप्रतिष्ठित अखबार की इस खबर से भारत की अन्तर्राष्ट्रीय छवि में कुछ हानि तो होगी, पर, चुनाव में फायदा ही होगा

चुनावों में बहुत मिलने की उम्मीद है। मजदूर संयोग यह है कि, गार्जियन में लेख के प्रकाशित होने से कुछ घंटे पूर्व ही गुरुवार को बिहार में एक जनसभा में भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा था कि "आज का भारत घर में घुस के मारता है।" उन्होंने आगे इस बात पर अफसोस जताया कि कांग्रेस के शासन में भारत में एक कमजोर सरकार थी। मोदी ने पाकिस्तान के बारे में एक स्पष्ट उदाहरण देते हुए कहा "ऐसे कुछ छोटे राष्ट्र जो गेहूँ की पूर्ति की भीख मांगते थे, उनके आतंकवादी हम पर

- जैसा कि विदित ही है, बालाकोट स्ट्राइक के बाद प्र.मंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि, "घर में घुस कर मारा था।"
- प्र.मंत्री मोदी की इस दम्भ पूर्ण हुंकार से 2019 के आम चुनाव में भाजपा को भारी राजनीतिक लाभ मिला था।
- अब गार्डिअन अखबार की खबर से भी भाजपा ऐसी जन प्रतिक्रिया की आशा कर रही है। क्या खबर छपने के एक दिन पहले मोदी का बिहार में आयोजित एक आमसभा में यह कहना कि, "आज भारत घर में घुस कर मारता है" एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है?

हमला करते थे, और कांग्रेस सरकार दूसरे देशों के पास जाकर उनकी शिकायत करती थी।" इससे पूर्व भी एक बयान में, प्रधानमंत्री ने कहा था पाकिस्तान से ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए जिस तरीके की भाषा वह समझता है।" गार्जियन में छपे लेख में भारत सरकार पर दूसरे देशों में वर्ष 2020 से अब तक 20 हत्याओं में लिप्त होने का आरोप लगाया है। लेख में कहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) ने वर्ष 2019 के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक साहसिक नजरिए के रूप में विदेशों

में इस तथाकथित हत्याओं की रणनीति को अपनाया है। यद्यपि इस लेख के प्रकाशन से भारत की छवि व इसकी स्थायी कूटनीति को नुकसान पहुंचने की संभावना है परंतु लेख में प्रकाशित विषय वस्तु से भाजपा को घरेलू स्तर पर चुनावों में बड़ा राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। इस बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इंग्लैंड के अखबार में छपे इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि "अखबार में छपी सामग्री असत्य है और भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार है।" विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस आरोप को पहले नकार दिया था और कहा था कि दूसरे देशों में चुन-चुनकर हत्या करना भारत सरकार की नीति नहीं रही है।

प्र.मंत्री मोदी आज पुष्कर में

जयपुर, 5 अप्रैल (का.सं.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शनिवार को अजमेर के पावन स्थल पुष्कर के मेला ग्राउंड में भाजपा की विशाल "विजय शंखनाद सभा" को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण प्रधानमंत्री पुष्कर के मेला ग्राउंड में भाजपा की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। सिंह बग्गी ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोपहर 12.20 बजे सभास्थल पहुंचेंगे। सभा में दौरान भाजपा के नेता, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तय कार्यक्रम के अनुसार सभा स्थल से रवाना होंगे।

किसानों ने लिया जयपुर शहर में भाजपा की जीत का संकल्प

जयपुरा जयपुर शहर लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा की प्रचण्ड जीत के लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और परकोटा क्षेत्र के साथ ही लोकसभा की सभी आठों विधानसभा सीटों पर

- किसान मोर्चा के कार्यकर्ता विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे
- अन्य दलों ने किसानों को हमेशा वोट ही समझा है लेकिन आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया : पटेल



जयपुर शहर लोकसभा चुनाव कार्यालय में शुक्रवार को किसान मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।

आमजन के बीच जाकर भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे। इसका निर्णय आज जयपुर शहर लोकसभा चुनाव कार्यालय में आयोजित किसान मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित और उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। अन्य दलों ने किसानों को हमेशा वोट ही समझा है

लेकिन आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। हवामहल विधायक बालमुकुन्दचरण ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सुराज संकल्प पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार ने एक अप्रैल से ही चना और सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। भाजपा ही किसानों की सच्ची हितैषी पार्टी है। महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार ने गैहूँ की एमएसपी पर

100 रूपए बोनास की घोषणा की है। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी अब 8 हजार रूपए वार्षिक हो गई है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो किसानों के सम्मान तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। किसान मोर्चा के प्रभारी कल्याण सहाय ने कहा कि अब चुनावों में सभी कार्यकर्ताओं को मतदान होने तक दिन रात एक करने हैं। इसके लिए वाई अनुसार कार्यकर्ताओं के दलों का गठन किया जाएगा जो अपने वाई में प्रचार के साथ ही मतदाताओं को पोलिंग

बूथ तक लेकर आने का कार्य करेंगे। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश सैनी ने कहा कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ता विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर आमजन के साथ बैठक कर भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। बैठक में किसान मोर्चा के शहर भर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

भाजपा का 45वां स्थापना दिवस आज


जयपुरा भाजपा के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश मुख्यालय को रंग-बिरंगी रोशनी और भगवा रंग से सजाया गया है, वहीं कार्यालय के मुख्य द्वार पर सजावट भी की गई है।

भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर ने बताया कि भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश मुख्यालय पर शनिवार सुबह 9:15 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही संगठन की विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।

ललित किशोर चतुर्वेदी को पुष्पांजली अर्पित

जयपुरा भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके जीवन मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी प्रवेश वर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक आंकर सिंह लखावत, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, प्रदेश मंत्री भिक्षु पोखवाल, ललित किशोर चतुर्वेदी के पुत्र लोकेश चतुर्वेदी सहित अन्य ने पुष्पांजली अर्पित की।

राज्यपाल को चित्र-कथाओं का सेट भेंट किया



राज्यपाल कलराज मिश्र को शुक्रवार को राजभवन में कलाकार, चित्र-कथाकार ब्रजराज राजवत ने मुलाकात कर अपनी सृजित चित्रकथाओं की पुस्तकों का सेट भेंट किया।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र को शुक्रवार को यहां राजभवन में कलाकार, चित्र-कथाकार ब्रजराज राजवत ने मुलाकात कर अपनी सृजित चित्रकथाओं की पुस्तकों का सेट भेंट किया। राज्यपाल मिश्र को राजवत ने चित्रकथा पुस्तकें राष्ट्र नायक सुभाष चन्द्र बोस, राष्ट्र उदायक आचार्य शंकर, वीर सावरकर और रानी पद्मिनी और गौरा-बादल की प्रतियां भेंट करते हुए अपने इस लेखन और कलाकर्म के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने चित्रकथा पुस्तकों की सराहना की। राजवत ने बताया कि चार पुस्तकों के इस सेट में आजादी आंदोलन में सुभाष चन्द्र बोस की रही भूमिका, आदि शंकराचार्य की भारतीय संस्कृति को रही

देन के संदर्भ में उनके जीवन आलोक, इतिहास के पत्रों पर दर्ज पद्मिनी और चित्तौड़ की वीरगाथाओं के जोहर, गौरा-बादल की वीरता के साथ ही वीर सावरकर को राष्ट्र भक्ति के संदर्भ में सुभाष चन्द्र बोस का सृजन किया गया है। इनमें इतिहास के प्रमुख तथ्यों को पर्याप्त शोध कर चित्रों के साथ पुस्तक भेंट करने के दौरान साहित्यिक संस्था आखरे के संयोजक प्रमोद शर्मा और फिल्मकार सुरेश मुरगल भी उपस्थित रहे।

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाका दीवानी) अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-7 मुकाम जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर माधुरी सिंह बाबत कोजोड
दत्ता बाबल-कायम मुकाम मुकदमा नम्बर 23/2014 C.S 42250/2014 बानाम-
मूसामी मनफुली पति राजेन्द्र मीणा कौम मीणा साकिन नटाटा तहसील आमेर पराना जिला जयपुर।
चुकि वादी ने इस अदालत में तारीख 15.10.2019 माह सन 199 को 1. माधुरी सिंह बनाम 2. कोजोड दावर की जो कि बाद में फौत हो गया। और चुकि प्रतियादी सं. 2 मुक बढी मजकूर के दरखास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतावकी प्रतियादी सं. 2/2 मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतियादी सं. 2/2 बनाये जावे।
तिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1. मनफुली 20 माह 04 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकूर पर आके हाजिर न होने पर मुकदमा आकरी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब मेरे दरखस्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन् 2024 को जारी किया गया।
रिडर ग्रेड प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-7. जयपुर महानगर द्वितीय

आपकी बेटी आपसे लेने आई है जीत का आशीर्वाद : मंजू शर्मा

जयपुरा भाजपा जयपुर शहर लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने किसानपोल विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने चांदपोल बाजार से लेकर छोटी चौपड़ तथा परकोटा क्षेत्र के विभिन्न बाजारों का दौरा कर भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान आमजन ने अपनी प्रिय नेता के स्वागत में पलक पावडे बिछा दिए और एक दर्जन से अधिक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया।

जनसंपर्क के दौरान लोगों ने जहां माला, साफा पहनाकर मंजू शर्मा का अभिन्दन किया। वहीं कई स्थानों पर आतिशबाजी के साथ ही लोगों को मुंह मीठा करवाकर भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने पूर्व सांसद स्व. गिरधारी लाल धांगव के घर जाकर मातृका भागवत से जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर का परकोटा वह क्षेत्र है जहां उनका बचपन

एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन के बयान लिए ए.सी.बी. ने

एस.एम.एस. अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने का मामला

जयपुरा सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी के मामले में एसीबी मुख्यालय की टीम ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन और एथिकल कमेटी के सदस्यों के बयान लेकर पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार मामले में शुक्रवार को एसीबी मुख्यालय की टीम एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंची। जहां टीम ने प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा और एथिकल कमेटी के मंबर डॉ. रामगोपाल यादव के लिए बयान लिए। टीम ने तैनों चिकित्सकों के हस्ताक्षर के सैम्पल भी लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी के लिए एथिकल कमेटी गठित है। पिछले एक साथ से इस कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। इसी का

टीम और तेजी से सक्रिय हो गई है। मामले की जांच के लिए एसीबी की टीम गुरुग्राम जा सकती है। गिरोंह के सदस्य झारखंड निवासी मोहम्मद अंसारी अपने साथियों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से बांग्लादेशी मरीजों को गुरुग्राम स्थित गेस्ट हाउस और होटल में रूकवाता था और बाद में फिडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में भेजा था। जयपुर में इस तरह के और कितने अस्पतालों में ट्रांसप्लांट हुए हैं, इसका एसीबी पता लगा रही है। वहीं राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 17 अस्पताल पंजीकृत हैं। इनमें पांच सरकारी और 12 निजी अस्पताल हैं। फर्जी एनओसी का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने जयपुर के फोर्टिस और ईंक्विसीटी अस्पताल का ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस रद्द कर

दिया है। वहीं गंगानगर का आस्था हॉस्पिटल में एक भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। राज्य के नौ अस्पताल जिन्हें पिछले दिनों ट्रांसप्लांट देा है। इनमें सबसे ज्यादा महत्त्वा गंधी अस्पताल में ट्रांसप्लांट हुए हैं। इन सबकी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि एसीबी ने अंग प्रत्यारोपण के लिए निजी हॉस्पिटलों को एसएमएस अस्पताल की कमेटी के नाम पर रिश्तत लेकर फर्जी एनओसी देने के मामले का 2 अप्रैल को ही खुलासा किया था। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासक अधिकारी गुरुसिंह व फोर्टिस हॉस्पिटल के अर्जित जोशी को गिरफ्तार किया था।

आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति और सास को सजा

जयपुर, (का.सं.)। शहर की महिला उत्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने विवाहिता को प्रताडित कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति गिरांज मीणा और उसकी मां भोली देवी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बर्तमान में इस प्रकरण के अपराधों में बदलाती हो रही है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से किसी तरह की प्रताडना नहीं की गई थी। मीनू ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। दोनों पक्षों को बयान सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

हिंडौन प्रकरण : मजिस्ट्रेट के बचाव में उतरी आरजेएस एसोसिएशन, याचिका पेश

जयपुरा करौली के हिंडौन थाना इलाके में दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज होने के दौरान उसके साथ प्रताडना व एससी-एसटी एक्ट के मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट के पक्ष में राजस्थान न्यायिक अधिकारी सेवा एसोसिएशन उत्तर गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गर्ग की ओर से मजिस्ट्रेट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में आराधिक याचिका पेश की है। जिस पर हाईकोर्ट आगामी सप्ताह सुनवाई करेगा। याचिका में राज्य सरकार, केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव, राज्य के सीएसए, गृह सचिव, डीजीपी, एसपी करौली, एसपी हिंडौन, अधिकारियों ने इस कानूनी प्रावधान की अवहेलना

करते हुए सीधे तौर पर ही जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद मीडिया ने इसे प्रकाशित किया और इससे आमजन में न्यायालयों की छवि भी धूमिल हुई। यदि जजों के खिलाफ जल्दबाजी व बिना मंजूरी के एफआईआर दर्ज होने लगी तो इससे जजेज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और प्रकरणों में निष्पक्षता पर फैसला सुनाया जाना उनके लिए कठिन हो जाएगा। गौरतलब है कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दुष्कर्म से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने गई थी। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने कपड़े उतार कर चोट दिखाने के लिए कहा।

करते हुए सीधे तौर पर ही जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद मीडिया ने इसे प्रकाशित किया और इससे आमजन में न्यायालयों की छवि भी धूमिल हुई। यदि जजों के खिलाफ जल्दबाजी व बिना मंजूरी के एफआईआर दर्ज होने लगी तो इससे जजेज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और प्रकरणों में निष्पक्षता पर फैसला सुनाया जाना उनके लिए कठिन हो जाएगा। गौरतलब है कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दुष्कर्म से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने गई थी। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने कपड़े उतार कर चोट दिखाने के लिए कहा।

आई.जी.एन.पी. की मरम्मत के दौरान आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने कहा कि आगामी मानसून को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर की रखरखाव एवं दुरुस्तीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर के जॉइंट्स/ड्रॉवर के दौरान भी क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की सुचारू व्यवस्था होती रहे। कुमार शुक्रवार को इंदिरा गांधी नहर मण्डल भवन में इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.) की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत निर्माणाधीन चार जलाशयों में मानसून में एकत्रित जल को पीएचडी विभाग की निकटतम स्कीम से जोड़ने की रणनीति पर कार्य किया जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि इन जलाशयों में एकत्रित होने वाले जल के वाष्पीकरण को कम करने के उपाय तलाशे जाएं। साथ ही लिफ्ट परियोजना में होने वाले विविध व्यय को कम करने के लिए सोलर सिस्टम लगाने पर विचार किया जाए। कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग को जाए जिससे परियोजना



अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी नहर मण्डल भवन में आई.जी.एन.पी. की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये।

पालिका अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने के आदेश पर रोक

जयपुरा हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत अदालत ने झालावाड़ के अकलेया नगर पालिका की अध्यक्ष को अयोग्य घोषित कर दिया था। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपिट ने यह आदेश विजय लक्ष्मी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अजय कुमार जैन ने अदालत को बताया कि कोग्रिस से जुड़ी याचिकाकर्ता अकलेया नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थी। वहीं भाजपा की कैलाशी देवी पराजित हुई थी। इस पर कैलाशी देवी ने जिला न्यायालय में चुनाव याचिका पेश कर याचिकाकर्ता के निर्वाचन को चुनौती दी। कैलाशी देवी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति नगरपालिका में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में विजय लक्ष्मी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी। इसलिए उसका निर्वाचन रद्द किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने गत 21 मार्च को याचिकाकर्ता का निर्वाचन रद्द कर दिया था। याचिका में कहा गया कि नियमानुसार इस आदेश को एक माह में अपील के जरिए चुनौती दी जा सकती थी।

उत्तर पश्चिम रेलवे खली ई-निविदा सूचना

व.म.वि.इ.पी. (टी.आरडी). उ.प.रे. जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी और से निर्माणित कार्य के लिये ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। क्र सं-1. एनआईटी ई-निविदा-टीआरडी-जीपी-2024-25-03. कार्य का नाम टीआरडी रूई इन कन्वैशन विद्य प्रोजेक्ट रेंजिन एण्ड एक्स्टेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म एट खानपुर अडॉर (के.प.ए.ए.) एण्ड कोलाग्राम (के.बी.जे.एम) स्टेशन ऑफ जयपुर डीजेल। अनुमानित लागत (रु): 41,28,727.80. बिड सिक्किरिटि राशि (रु): 82,800.00. निविदा खोलने की तिथि: 30.04.2024. नोट: ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय: निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक; ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय: निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे बाद; सम्पूर्ण जानकारी के लिये वेबसाइट पता: http://www.reps.gov.in 432-AN/24 एवं ई-मेल: NWR/Railways पर फॉलो करें। प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21) कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक न्यायस अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिफिस सम्मत्त सचिवताद व्यक्तियों को (नाम, बयान तथा निवास स्थान) मुकदमा नम्बर 13/5/2024 चुकि श्री अरुण कुमार सिन्घेय पुत्र श्री शानि कुमार सिन्घेय निवासी 3 यमुना पथ, सूब नगर (बैठर) सिविल लाइन्स जयपुर-302006 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 को धारा 17(1) के अन्तर्गत अलोक सिन्घेय केटिकल ट्रेड प्रयास पत्र 3, आचरक कॉलोनी सिविल लाइन्स जयपुर ने राजस्थान के सम्मत्त में अंतिम पत्र भिजे जाने के लिए अवेदन पत्र प्रेषित किया है। अवेदन पत्र 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रेषित सचिव के प्रयास में उरुक्क प्रयास विवरणों में उरुक्क का यह है कि हिंदू नरसिंह जयसिंह नामसे के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि ये नरसिंह के जारे होने को शरोच से सात दिव के भीतर उक्त प्रयास के सम्मत्त में अपूर्णता, यदि कोई प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नोटिड अन्वयि के भीतर कोई अपूर्णता नहीं की गई तो उक्त अवेदन पत्र निर्वाचित नोति से निर्णय किया जायेगा तथा उरुक्क प्रयास नामसे से निष्कर्ष अतिरिक्तित किया जायेगा। आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे हुतावरत तथा कानूनीय अधिक के अधीन निविदा प्रेषित। आशा तारीख 06.06.2024 आचरक रंजन (आर.एम.ए.) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433


सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराये।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पुष्कर में चुनावी जनसभा

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया दौरा, पीएम मोदी अजमेर व नागौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

पुष्कर, (निसं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार छह अप्रैल को पुष्कर के मेला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री विधायक जनसभा में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेला मैदान में हो रही जनसभा को लेकर प्रशासन और पुलिस हाईअलर्ट हो रही है। वहीं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्कर में डेरा डाला रखा है तथा मेला क्षेत्र से हेलीपैड तक किलेबंदी करके चपे-चपे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हो रहे हैं। वहीं अजमेर से दिल्ली तक की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है तथा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी यहां अजमेर व नागौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में शनिवार को विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए सभा स्थल पर भयं मंच के साथ-साथ आमजन के लिए तीन बड़े डोम तैयार किए जा रहे हैं। शनिवार को प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री व खंडार विधायक जितेंद्र कुमार गोटवाल, देवनागराज बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ना, जिला प्रधारी बीरम देव सिंह, अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतडा, शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर नगर



पीएम मोदी की पुष्कर में होने वाली चुनावी जनसभा को लेकर विशाल डोम तैयार किया जा रहा है।

निगम के उप महापौर नीरज जैन सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने डेरा डाला रखा है तथा सभी अजमेर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए रूप रेखा तैयार कर रहे हैं तथा सभा में एक लाख से अधिक लोग पहुंचने की संभावना

व्यक्त की गई है। साथ ही कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी। इधर एसपीजी के अधिकारियों ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ सावित्री तलहटी के पीछे स्थित अस्थायी हेलीपैड से लेकर सभास्थल तक के तय मार्ग का दौरा किया तथा अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा पुष्कर के राजकीय

चिकित्सालय में भी चिकित्सा प्रभारी को आपत्कालीन चिकित्सा कक्ष तैयार करने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के निर्देश दिए। इसी के साथ एसपीजी ने तीनों ही स्थानों को अपनी निगरानी में ले लिया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ब्रह्माजी की नगरी पुष्कर में 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

■ **चुनावी सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक शामिल होंगे**

सभा आयोजित हो रही है। मंत्री रावत ने बताया कि पीएम मोदी 6 अप्रैल को पुष्कर के मेला मैदान में अजमेर व नागौर जिले की जनता को संबोधित करेंगे। सभा में अधिक से अधिक लोग पहुंचे इसके लिए प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने अजमेर और नागौर में जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार पिछली बार से अधिक मतों से भाजपा विजयी होगी। मोदी की 6 अप्रैल को पुष्कर में होने वाली चुनावी जनसभा को लेकर मेला मैदान और हेलीपैड का जिले के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा, आईजी तला मनोज, एसपी देवेन्द्र सिंह बिस्नोई, जिला कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित एडिशनल एसपी दीपक कुमार सीओ ग्रामीण रामचंद्र सीओ यातायात पुलिस मनीष बडगुजर सहित भीलवाड़ा टॉक ब्यूरो के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार करते हुए झूठ का पुलिंदा बताया। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 सालों तक देश पर राज किया, इस दौरान उन्होंने किसान, गरीब कल्याण और देशहित में क्या किया यह जनता जानना चाहती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जनता से झूठ वादे करके सत्ता हासिल करती आ रही है। जो काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए भाजपा की मोदी सरकार ने उससे ज्यादा काम पिछले दस सालों में कर दिखाया। सालों तक गरीबी हटाओं का नारा देने वाली कांग्रेस ने गरीबी हटाने पर कभी काम नहीं किया, मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में देश के विकास और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया।

■ **सीपी जोशी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया**

■ **चित्तौड़गढ़ में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए सीपी जोशी**

अध्यक्ष कपसन प्रकाश चौधरी सहित कई नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ शहर मंडल के पन्नाघाय शक्ति केंद्र पर बृह संख्या 157 में कार्यक्रमों के साथ टिफिन बैठक कर स्थापना दिवस पर किए जाने वाले कार्यों को लेकर दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। इस दिन कार्यकर्ताओं को हर घर पर भाजपा का ध्वज और दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टीकर लगाना है, साथ ही भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और प्रत्याशी व भाजपा की अपील लिखा पत्रक हर घर तक पहुंचाना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर पत्रे पर 60 मतदाता होते हैं। कार्यकर्ता को जो घर लोगों में बांटकर संपर्क करे। मतदान दिवस तक हर मतदाता से तीन बार संपर्क करना है और राष्ट्रहित में भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करें। इस दौरान जिलाध्यक्ष मिहूलाल जाट, मंडल अध्यक्ष सागर सोनी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अजमेर, (कासं)। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किसी और की संपत्ति को अपनी बना फर्जी दस्तावेज बनाकर 61 लाख 90 हजार रूपए हड़पने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं कराने में आरोपियों आनाकानी करने पर चला। पोंडित गोयल ने बताया कि पड़ोस में दुकान चलाने वाले जगदीश नारवानी पुत्र सुनीलाल ने एक कम्पति को एक करोड़ 23 लाख में बेचने का इकरारनामा किया और 61 लाख 90 हजार रूपए ले लिए। पोंडित ने कहा कि संपत्ति के हक अधिकार होने का झूठा झांसा देकर जगदीश नारवानी, दिनेश नारवानी, गोपाल नारवानी की ओर से इकरारनामा किया गया। पोंडित ने अभिजीत गोयल ने

■ **रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करने पर खुला मामला**

■ **सम्पत्ति के बारे में जानकारी पता की तो दूसरे नाम पर दर्ज मिली**

बताया कि इकरारनामा के कुछ दिनों बाद उन्होंने सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए आरोपियों से कहा तो इन लोगों ने रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करना शुरू कर दी। शक होने पर जब सम्पत्ति के बारे में जानकारी पता की तो यह सम्पत्ति आशा गुप्ता के नाम पर दर्ज पाई गई। आशा गुप्ता ने पूर्व में ही इस संपत्ति का बेचान 56 लाख 10 हजार रूपए में पहले ही किसी अन्य को कर दिया था। पोंडित ने आरोप लगाया कि जगदीश नारवानी, दिनेश नारवानी, गोपाल नारवानी ने धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज के आधार पर इकरारनामा कर 61 लाख 90 हजार रूपए हड़पने का सच पता चला। पोंडित ने कहा कि संपत्ति के हक अधिकार होने का झूठा झांसा देकर जगदीश नारवानी, दिनेश नारवानी, गोपाल नारवानी की ओर से इकरारनामा किया गया। पोंडित ने अभिजीत गोयल ने

कुत्तों के झुंड ने चार वर्षीय बच्ची को नोंच-नोंच कर मार डाला

बच्ची की मौत के बाद कुत्तों के आतंक से परेशान क्षेत्रवासियों में आक्रोश

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के अंबामाता क्षेत्र में मस्तान बाबा दरगाह के पास शुक्रवार सुबह 7.30 बजे कुत्तों के झुंड ने 4 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया और उसे नोंच-नोंच कर मार डाला। बच्ची की मौत के बाद कुत्तों के आतंक से परेशान क्षेत्रवासियों में भी आक्रोश है।

अंबामाता थाने के हेडकांस्टेबल रणजीत सिंह ने बताया कि कुत्तों के हमले में सागर, मध्य प्रदेश, निवासी रेयामा (4) पुत्री नदीम खान की मौत हुई है। रमजान का महीना चल रहा है, जिसके चलते नदीम खान परिवार सहित

■ **एम.पी. का परिवार जियारत करने उदयपुर में मस्तान बाबा दरगाह आया था**

जियारत करने उदयपुर में मल्लातलाई स्थित मस्तान बाबा दरगाह आया हुआ है और यहीं ठहरा हुआ है। जुम्मे की नमाज के चलते सुबह जल्दी तैयार होने के लिए नदीम बच्ची को लेकर सुबह दरगाह परिसर में स्थित सुलभ

कॉम्प्लैक्स गया। सुबह 7.30 बजे बच्ची को नहलाकर तैयार कर नदीम ने सुलभ कॉम्प्लैक्स परिसर में बैठा दिया और खुद नहाने चला गया। इसी दौरान बच्ची खेलते-खेलते सुलभ कॉम्प्लैक्स के बाहर आ गयी, यहाँ मौजूद कुत्तों ने झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोंच डाला। बच्ची की आवाज सुनकर नदीम सहित अन्य लोग दौड़कर वहां पहुंचे, कुत्तों को भगाकर गंभीर घायल बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे में पति की मौत, पत्नी घायल

भीलवाड़ा, (निसं)। स्कूटर सवार पति-पत्नी को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पति की मौत हो गई जबकि घायल पत्नी को इलाज के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरों से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी स्कूटर पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई। इनमें से किसी ने 108 को फोन किया जिसकी सहायता से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। मामला शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र का है।

थाने के एसआई एजाजुद्दीन ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाले 50 वर्षीय सुरेश सेन अपनी पत्नी मंजू के साथ पटेल नगर क्षेत्र में चंबल परियोजना ऑफिस के पास से अपने घर की ओर जा रहे थे, इसी बीच अज्ञात वाहन ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी मंजू को इलाज के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत खतरों से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद चालक मौके तो फरार हो चुकी है।

छत पर सो रही छात्रा से दुष्कर्म, मामला दर्ज

रिपोर्ट में रिश्ते में लगने वाले चाचा पर पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए

■ **पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया**

रिश्ते में लगने वाला चाचा उसके साथ गलत काम कर रहा था। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। इस दौरान आरोपी ने उसकी फोटो मोबाइल पर खींच ली तथा चिल्लाने पर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। जब उसका हाथ मुंह से हटा तो वह जोर से चिल्लाई तो उसके भाई-बहन जाग गए। उनके जागने के साथ ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। क्लाक टावर थाना पुलिस ने एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

क्लाक टावर थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने आरोपी महेन्द्र सिंह के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बादतक के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने अनुसंधान करते हुये आरोपी की सम्पूर्ण जानकारी

उसने मुझे बहला फुसला कर सम्पर्क बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे शादी कर लूंगा। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वह मेरे घर आने जाने लगा और मुझे शादी का आश्वासन देता रहा और मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती संबंध बनाए। जब पुलिस में कार्यवाही करने की बात कही तो महेन्द्र ने कहा कि मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी ईज्जत खराब हो जाएगी। महेन्द्र जबरन मेरे साथ संबंध बनाता था। जब भी कार्यवाही करने की बात कही तो शादी का आश्वासन देकर रिपोर्ट देने से रोके देते साथ आरोपी ने पीहर से जो 11 लाख रूपए हड़प लिए। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

सोलर प्लांट में डकैती व फायरिंग करने वाली गैंग का खुलासा, आठ गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर रेंज की विशेष टीम ने सोलर प्लांट में लूट-डकैती, फायरिंग करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए तीन मुख्य आरोपियों सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनमें गैंग का सरगना भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से 33 सोलर प्लेटें, टील कंडक्टर 50 मीटर, गैंग वायर, बैंक स्टे क्रॉस प्लेट भी बरामद की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए फलोदी जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाणा के नेतृत्व में पुलिस की ओर से

4 मार्च को एका चौराहा पर नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस की नाकाबंदी पर भगाने का प्रयास करने लगे लेकिन पुलिस ने तीन आरोपी शिव प्रताप रामस्वरूप और विनोद को पकड़ लिया। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया पुलिस ने सोलर प्लांट में लूट, डकैती, चोरी, फायरिंग जैसी वारदातों का खुलासा करने के लिए रेंज स्तरीय विशेष टीम बनाई थी। इस ऑपरेशन को सेवेंथ हॉर्स का नाम दिया गया था। इसके तहत पुलिस ने शिव प्रताप (27) पुत्र बगडू राम विरनोई

निवासी सरनायत पुलिस थाना रामदेवरा को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार का इनाम घोषित था। उसके खिलाफ जिला जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और कमिश्नरेट में 20 मामले चल रहे हैं। जिसमें वह फरार चल रहा था। आरोपी रामदेवरा थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। आरोपी जल्द अमीर बनने के चक्कर में अलग-अलग चोरी की गैंग के साथ मिलकर लूट-डकैती और चोरियां करता था। पुलिस ने गैंग के सात अन्य

आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जिसमें रामस्वरूप (26) निवासी मदासर पुलिस थाना नोख, विनोद (27) विरनोई निवासी मदासर, रईस (40) पुत्र निवासी जलोदा, आभिर (36) निवासी सरदारपुरा, रिजवान (34) निवासी चांदना भाखर, मोहम्मद शरीफ (34) निवासी भिंजोजी का गांव पुलिस थाना बाप, मकसूद (38) निवासी हिंडालगोल पुलिस थाना फलोदी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार रईस 0029 गैंग का सदस्य है। उसके खिलाफ 10 मामले चल रहे हैं।

सांभरझील, (निसं)। राजस्व रिकर्डों में तहसील फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक के स्थान पर तहसील सांभर शुद्ध करने के लिए वर्ष 2012 से लंबित चल रहे मामले का निवर्तमान सरकार ने इस पत्रावली को उठे बस्ते में डाल कर तमाम प्रशासनिक बड़े अफसरों की रिपोर्ट/सिफारिश को पूरी तरह से नजर अंदाज कर विराम लगा दिया, जबकि इस मामले में प्रमुख शासन सचिव की अभिशांसा व जांच रिपोर्ट भी शामिल थी कि 'तहसील फुलेरा मुख्यालय

सांभरलेक के स्थान पर तहसील सांभर' राजस्व रिकर्डों में दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस मामले में तहसीलदार, उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर व राजस्व मंडल भी यह बात लिखित में सरकार को बता चुके हैं कि वर्ष 1952 से तहसील कार्यालय, सांभर मुख्यालय पर ही संचालित हो रहा है तथा इस बात का कभी कोई दस्तावेजी साक्ष्य व ठोस प्रमाण तमाम जांच के बाद प्राप्त नहीं हुआ कि तहसील कार्यालय कभी भी फुलेरा संचालित हुआ हो, इस बात का खुलासा खुद सरकार ने भी आरटीआई में मांगी गई सूचना के आधार पर राजस्व

विभाग के पूर्व लिपिक शैलेश माथुर को उपलब्ध भी करवाई है। राजस्व विभाग के तमाम अधिकारियों ने सरकार को यह भी लिखा कि तहसील दूध मुख्यालय मौजामाबाद की थी यही टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसे सरकार ने 2012 से पहले ही राज्यपाल की आज्ञा से गजट नोटिफिकेशन जारी कर इस भूल को सुधार चुकी है, इसको भी आधार बनाकर सिफारिश की गई लेकिन बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के प्रति अंदरूनी राजनीतिक नाराजगी इस कदर रही कि उन्होंने सांभर के इस महत्वपूर्ण

मसले को ही हल करने के बजाय इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। आश्चर्य तो इस बात का है कि वर्ष 1952 से ही सांभर को जिले का दर्जा दिलाने का दंभ भरने वाले नेताओं ने सात दशक में कभी भी इस समस्या को न तो उठाया और नहीं सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से इसकी पैरवी कर सके, लिहाजा यह मामला आज भी लंबित है। पूर्व लिपिक माथुर का कहना है कि अब इस मामले को राजस्थान उच्च न्यायलय में नजहित याचिका दायर कर ले जाएंगे, क्योंकि यहां के नेताओं के बस की बात नहीं है कि वह इसको हल करवा सके।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कल पिलानी आएंगे

झुंझुनू/पिलानी, (निसं)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार, 7 अप्रैल को पिलानी आएंगे। जहां वे कस्बे के उत्सव मैदान में दोपहर एक बजे लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

चुनाव प्रचार के लिए आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारियों को लेकर सरगमियां बढ़ गई हैं। जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक पिलानी में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को मंडल और बूथवार जिम्मेदारियां सौंपी गईं। लोकसभा प्रभारी ने जनसभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी देते हुए बूथ स्तर तक जन सम्पर्क करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी और प्रदेश के अन्य बड़े नेता भी रक्षा मंत्री



सभा की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई।

की जनसभा में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री की जनसभा को लेकर

आयोजित बैठक में विधानसभा क्षेत्र प्रभारी सेवाराम गुप्ता, संयोजक मुर्लीचर

शर्मा, जिला महामंत्री राजेश दहिया, विकास लोटिया, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह

■ **शुभकरण चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह**

■ **कार्यकर्ताओं को मंडल और बूथवार जिम्मेदारियां सौंपी**

Rajasthan Medical Services Corporation Limited, Jaipur
Gandhi Block, Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302005
 Ph. No. 0141-2223887, Fax : 0141-2228065 E-mail : rmcscsupply2@gmail.com
 CIN:U2432R2011SGC035067 Website: http://rmcsc.healthrajasthan.gov.in

क्रमांक- एक/4(1)/आरएसएससी/संसाई/अन्तर DDW परिहहन/2023-25/6133 दिनांक-22.03.2024

CLARIFICATION/CORRIGENDUM/ADDENDUM

Sub- Revised bid submission date of the rate contract for- वर्ष 2024-26 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2026) में औषधियों/सर्जिकल/सूक्ष्म आदि के अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (राज्य एवं राज्य के बाहर) परिहहन कार्य। ई-निविदा क्रमांक- एक/4(1)/आरएसएससी/संसाई/अन्तर DDW परिहहन/2023-25/6133 दिनांक 14.03.2024

In Reference to subject cited above, The following Clarification/Corrigendum/Addendum is issued for inclusion in Bid document of items as below:-

Revised Bid Schedule:-
 E-bids are invited as per following revised time schedule:-

Existing Dates				Extended Dates			
Last Date for Sale of Bid Form	Last Date of Receipt of Bid Form	Last Date of submission of bid document	Date of Opening of Technical Bid	Last Date for Sale of Bid Form	Last Date of Receipt of Bid Form	Last Date of submission of bid document	Date of Opening of Technical Bid
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024
12:00 p.m.	12:00 p.m.	12:00 p.m.	04:00 p.m.	12:00 p.m.	12:00 p.m.	12:00 p.m.	12:00 p.m.

Note:- Please note that all above amendments/corrigendum in technical specifications/bid conditions is the integral part of and the bid document. This corrigendum/ addendum should be signed and annexed with bid document. All other terms & conditions remains the same.

Raj.Samwad/C/2/4/6 **OSD, RMSCL, Jaipur**

#ADVENTURE

All You Need To Know About The Kashmir Great Lakes Trek

This journey takes hikers through some of the most arresting landscapes imaginable, offering a glimpse into the Kashmir region's rich history, diverse biodiversity and unparalleled beauty.



The Kashmir Great Lakes Trek is a challenging six-day hike, spanning 75 kilometres in the Western Himalayas of Kashmir. On an average, the trek involves more than 12 kilometres of hiking per day. It begins at Sonamarg and ends at Naranag, suitable for individuals aged 15 and above. Considering the terrain, it is

Kashmir Great Lakes Trek

The Kashmir Great Lakes Trek is located in the northern Indian state of Jammu and Kashmir, which is often referred to as 'Paradise on Earth'. This region has a rich history, influenced by various civilisations, including the Mughals, Sikhs, and British. The trek winds through the heart of the Kashmir Valley, offering breath-taking views of its famous lakes and sur-

Landscape & Biodiversity

The great trek stands out for its impressive array of wildlife and natural beauty. Trekkers will be surrounded by diverse flora and fauna, including rare species such as the Kashmir stag (*Hemionus*), snow leopard, and black bear. The trek takes hikers through dense pine, oak, and rhododendron forests, where they will have plenty of opportunities to spot wildlife and watch

Places To See

Along the trek, hikers can witness places like Sonamarg, a beautiful hill station that serves as the starting point of the trek. It is known for its lush meadows and snow-capped peaks, which offer a picturesque view. Nichnai Pass is another attraction on the route, a high mountain pass that provides stunning views of the surrounding valleys and glaciers. Vishansar Lake is the first of the seven lakes on the trek. It is known



The acute problem was the profuse bleeding from the large scalp wound on the back of the head. One of the truck drivers' handed Sukriti a cotton scarf, which she wrapped around the head, and applied firm pressure. Once things were under control, she handed over the compression to one of the onlookers, and went on to check the male driver, who was still sitting in the car and speaking on the mobile in a groggy fashion. The car door had jammed. As she approached him, he too fell into a faint.




Dr Goutam Sen
CTVS Surgeon
Traveller
Storyteller

After the recent opening of the Northern Expressway 4 (NEA), most of our family commutes, to Delhi and Gurugram, have been on this road. National Highway 48 (NH 48), with its chaotic traffic and many diversions, along with slow-moving overloaded trucks, running in all the lanes, was always not only tiring but also bit frightening. The continuous lane changing, on both sides of the vehicle ahead, was tense and against the rules. I often said to my friends that driving on Indian highways, we follow the American style of keeping to the 'right' and overtaking on the 'left'. The new expressway, from Bhandare to Sohma, is an exquisite 180 kilometre segment of the Delhi-Mumbai Expressway, albeit deceptively undulating at places. This eight-lane road is a smooth fast-driving segment comparable to international standards. Although, the distance has increased and the toll is higher, this has become the preferable route. The speed limit for cars on this road is 120 km per hour. The ride, therefore, is enjoyable and with the newer cars, driving with cruise control, it is less tiring.

Sukriti, my granddaughter, returned from a brief holiday in Thailand. It was an impromptu trip and she enjoyed it well. She was able to see the new restaurant 'Tapori', which her *chacha*, Rohit had just opened in Bangkok. It was a fun trip with Sitara, a cousin from UK. A small stay in Ko Samet was well enjoyed. When she climbed into the taxi at IGI airport to return to Jaipur, she was looking forward to meeting the family and regaling us with her experiences.

There was one experience that she had not anticipated! Despite higher permitted speeds, most taxi drivers still drive at about a steady 90 to 100 km per hour on the Expressway and make

THE WALL



#EXPRESSWAY SENSE

the trip in about four hours. Sukriti's taxi was doing the same, when they saw a collection of people and a damaged car ahead, just as they were coming out of the rest area. The normal reaction in such circumstances is not to stop, if there are people already attending to the accident victims. But this time, Sukriti decided to stop, as she saw a woman lying on the road in a dishevelled state, with bleeding from her head. The all-male group around her was hesitant to attend to her, probably fearing an allegation of molestation. The frock, that she was wearing, had been blown upwards and the lower part of the body was exposed. Sukriti is a non-medico in a family of doctors and she had recently attended a *Basic Life Trauma Support Course* (BLTS) at the SDM Hospital, under the aegis of the Ortopedic Department and ROSA, where *Cardiopulmonary Resuscitation* (CPR) had been taught and practised by the participants on dummies.

Reflexively, all the lessons, that she had learnt, flashed in her mind. She quickly knelt beside the woman and checked her pulse and breathing. The eye movements, too, were normal. The accident victim indicated to Sukriti that she was able to understand and obey her instruction and to move her limbs. The acute problem was the profuse bleeding from the large scalp wound on the back of the head. One of the truck drivers' handed Sukriti a cotton scarf, which she wrapped around the head, and applied firm pressure. Once things were under control, she handed over the compression to one of the onlookers, and went on to check the male driver who was still sitting in the car and speaking on the mobile in a groggy fashion. The car door had jammed. As she approached him, he too fell into a faint. She grabbed the phone from him as he was pulled out of the car. She realised that he had been speaking to his father. She conveyed to the father that everything was in reasonable control and there was no imminent danger to life. The ambulance had been already called and was expected any moment.

Citizen's Duty on Indian Highways



Fortunately, an orange jacket-clad person had also rushed from the rest area. He made sure that the regular traffic continued to move and no traffic jam took place. Then, she did an amazing thing. Being a mobile savvy person, she switched the 'live' and 'current' location on the phones of the victims. When she handed the phones to the medics from the ambulance, she made sure that they carried the phones with them. This action assured that the family would always know where the accident victims were being taken.

Once the ambulance was loaded and moved towards the nearest trauma hospital, Sukriti realised what she had done. While she was washing her blood-stained hands and arms, and the adrenaline rush was subsiding, she felt the 'enormity' of the deed. Is there a false modesty about attending to females? Although there were half-a-dozen trucks parked on the roadside, why was a first aid kit not offered? An informal polling about first aid boxes revealed that most cars are given a minuscule first aid box at the time of purchase but that has never been opened or used! Road accidents and deaths have been constantly looking into all aspects of accidents on the road. It must be remembered that only 5% of the accidents take place on highways and expressways. The large numbers are in the urban areas.

What should a first aid box contain?

- Bandages in various sizes and varieties, including compression bandage
- Sterile Gauze Pads and Roll
- Medical Tape
- Scissors and Tweezers
- Disposable Gloves
- Antiseptic Wipes or Betadine
- spray
- Antiseptic and allergy creams
- First Aid Instruction Booklet
- Distiller water for cleaning
- Emergency Blanket
- Medication for pain or
- Sterile Eye Wash Solution



Finally, it is essential to be trained! Having the equipment but not knowing the use is stupid!

cult to find.

Overturned trucks and delivery vans are the biggest targets of such action. The contents are looted. Why had people, who had reached the accident site earlier, not helped the victims? What was the probable cause? Is there a false modesty about attending to females? Although there were half-a-dozen trucks parked on the roadside, why was a first aid kit not offered? An informal polling about first aid boxes revealed that most cars are given a minuscule first aid box at the time of purchase but that has never been opened or used! Road accidents and deaths have been constantly looking into all aspects of accidents on the road. It must be remembered that only 5% of the accidents take place on highways and expressways. The large numbers are in the urban areas.



Active Dog Month

Did you know that April is *Active Dog Month*? That's right, it's a month created that's all about enjoying spring and getting active with your 'furry' best friend! Dogs need exercise and fun just as much, if not more, than their humans. Bond with your furry friends by playing, running, or exploring new places with them. Take longer walks, explore new areas, and spend time in the warm sunshine! All you need is a leash to get started. Discover new, creative ideas for logging beneficial activity with your dog.



Road accidents, being the result of inter-play of multiple factors, multipronged measures are needed to reduce the number of accidents and fatalities.

Amongst the States, Tamil Nadu with 64,105 accidents (13.9%) recorded the highest number of road accidents in 2022 followed by Madhya Pradesh (54,432 i.e., 11.8%). Uttar Pradesh (22,595 i.e., 13.4%) topped the States with respect to the number of fatalities due to road accidents followed by Tamil Nadu (17,884 i.e., 10.6%).

Road accidents and deaths took place on different categories of NH due to traffic rules' violation. This data reveals that 'overspeeding' is the major cause for road accidents and deaths. In 2022, 72.4 per cent of accidents and 75.2 per cent of deaths were recorded due to 'overspeeding.' The other major traffic rules' violations like 'drunken driving/consumption of alcohol and drugs,' 'jumping red light,' 'driving on wrong side,' 'use of mobile phones' etc. registered an increase in 2022 compared to 2021. The element of 'overspeeding' needs elaboration. Most Indian drivers have 'graduated' from two-wheelers to four-wheelers. The two-wheeler driving has inculcated some bad habits like overtaking from the wrong side, frequent lane changing, spurts of high speed, even in congested areas. These habits need to be changed when driving a four-wheeler, which is based on the principle of 'Box' driving.

There is considerable underestimation of the power of the cars and the swerving that takes place at high speed due to road surface and even wind. This is grossly underestimated. Most cars, driven on Indian roads, fail to conform to *safety of International levels*, having been built mostly of plastic and not even having a solid frame. In addition, cars in poorly maintained condition, are driven too fast. I wonder how many car owners do an *under the bonnet check* before a long drive? The condition and quality of the tyres in India are as yet not designed for high speeds. Being hit from the back constitutes nearly 55% of all highway accidents. This is ample evidence that the 'safe distance' between vehicles, driving at high speed, is not maintained.

Nitin Gadkari admits that despite so many successes, the NHAI has admitted dismal failure in prevention of accidents. The rules are there and as usual, implementation is the main deficit. The highways need to be policed in a far more efficient manner, not only by having more police vehicles on the spot but also by the use of modern methods of 'speed checking' and detection of other infringements. Speed camera and heavy fines are just the beginning. If finances are an issue, there should be no hesitation in increasing the tolls to defray the costs. Being penny-wise and pound-foolish is no answer!

rajeshsharma1049@gmail.com

#TECHNOLOGY

Glowing Protein

We can monitor changes in oxygen concentration continuously and in a wide area of the brain

A new bioluminescence imaging technique has created highly detailed, and visually striking images of the movement of oxygen in the brains of mice.

The human brain consumes vast amounts of energy, which is almost exclusively generated from a form of 'metabolism' that requires oxygen. While the efficient and timely delivery of oxygen is known to be critical to healthy brain function, the precise mechanics of this process have largely remained hidden from scientists.


The new method, which can be easily replicated by other labs, will enable researchers to more precisely study forms of hypoxia in the brain, such as the denial of oxygen to the brain that occurs during a stroke or heart attack. The new research tool is already providing insight into why a sedentary lifestyle may increase risk for diseases like Alzheimer's.

"This research changes in oxygen concentration continuously and in a wide area of the brain," says Maiken Nedergaard, co-director of the Center for Translational Neuromedicine (CTN), which is based at both the University of Rochester and the University of Copenhagen.

"This provides us with a more detailed picture of what is occurring in the brain in real time, allowing us to identify previously undetected areas of temporary hypoxia, which reflect changes in blood flow that can trigger neurological deficits."

The new method employs *luminescent proteins*, chemical cousins of the bioluminescent proteins, found in fireflies. These proteins, which have been used in cancer research, employ a virus that delivers instructions to cells to produce a *luminescent protein* in the form of an enzyme. When the enzyme encounters a second chemical compound, a substrate called *luciferazine*, the chemical reaction generates light.

Like many important scientific discoveries, employing this process, to image oxygen in the brain, was stumbled upon by accident. Felix Beillich, an assistant professor in the CTN at the University of Copenhagen, had originally intended to use the luminescent protein to measure calcium activity in the brain. It became apparent that there was an error in the production of the proteins, causing a



months-long delay in the research.

While Beillich waited for a new batch from the manufacturer, he decided to move forward with the experiments to test and optimize the monitoring systems. The virus was used to deliver enzyme-producing instructions to astrocytes, ubiquitous support cells in the brain, that maintain health and signaling functions of neurons, and the substrate was injected into the brain via a craniotomy. The recordings revealed activity, identified by a fluctuating intensity of bioluminescence, something that the researchers suspected, and would later confirm, reflected the presence and concentration of oxygen.

"The chemical reaction in this instance was oxygen-dependent, so, when there is the enzyme, the substrate, and oxygen, the system starts to glow," says Beillich.

While existing oxygen monitoring techniques provide information about a very small area of the brain, the researchers were able to observe, in real time, a large section of the cortex of the mice. The intensity of the bioluminescence corresponded with the concentration of oxygen, which the researchers demonstrated by changing the amount of oxygen in the air which the animals were breathing. Changes in light intensity also corresponded with sensory processing.

For example, when the mice's whiskers were stimulated with a puff of air, the researchers could see the corresponding region of the brain light up.


The brain cannot survive long without oxygen, a concept demonstrated by the neurological damage, that quickly follows a stroke or

heart attack. But what happens when very small parts of the brain are denied oxygen for brief periods?


This question was not even being asked by researchers until the team in the Nedergaard lab began to look closely at the new recordings. While monitoring the mice, the researchers observed that specific tiny areas of the brain would go dark, sometimes for minutes, meaning that the oxygen supply was being cut off.

Oxygen is circulated throughout the brain via a vast network of arteries and smaller capillaries, or microvessels, which permeate brain tissue. Through a series of experiments, the researchers were able to determine that oxygen was being denied due to *capillary stalling*, which occurs when white blood cells temporarily block microvessels and prevent the passage of oxygen carrying red blood cells. These areas, which the researchers named 'hypoxic pockets', were more prevalent in the brains of mice during a resting state, compared to when the animals were active. Capillary stalling is believed to increase with age and has been observed in models of Alzheimer's disease. "The door is now open to study a range of diseases associated with hypoxia in the brain, including Alzheimer's, vascular dementia, and long COVID," and how a sedentary lifestyle, ageing, hypertension, and other factors contribute to these diseases," says Nedergaard.

"It also provides a tool to test different drugs and types of exercise that improve vascular health and slow down the road to dementia."




BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

संक्षिप्त

ममता शर्मा भाजपा टॉक विधानसभा संयोजक

टॉक, (निर्स)। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमारी शर्मा ने महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी एवं जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता की अनुमति से सांसद जौनपुरिया के पक्ष में चुनाव प्रचार को गति देने के लिए महिला मोर्चा टॉक के विधानसभा संयोजक की नियुक्ति की है, जिसमें टॉक विधानसभा में प्रचार प्रसार हेतु ममता शर्मा को संयोजक और संगीता सैन को सहसंयोजक बनाया है।

ममता शर्मा को विधानसभा संयोजक की नियुक्ति की है, जिसमें टॉक विधानसभा में प्रचार प्रसार हेतु ममता शर्मा को संयोजक और संगीता सैन को सहसंयोजक बनाया है।

विनोद सिंह युवा मोर्चा के जिला प्रभारी

कोटपुतली, (निर्स)। भाजपा जयपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा ने पार्टी

प्रदेशाध्यक्ष सी.पी.जोशी के निर्देशानुसार जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह को युवा मोर्चा का जिला प्रभारी नियुक्त किया है।

रत्ना कुमारी महिला मोर्चा प्रभारी

शाहपुरा, (निर्स)। भारतीय जनता पार्टी जयपुर देहात जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा ने रत्ना कुमारी शाहपुरा को महिला

मोर्चा प्रभारी नियुक्त किया। इस पर रत्ना कुमारी ने आभार प्रकट किया है और कहा कि

आपको आशा एवं विश्वास दिलाती हूँ कि पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगी। पार्टी में रत्ना कुमारी का कद बढ़ने पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों ने शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी है।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

टॉक, (निर्स)। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने बताया कि टॉक शहर की मुख्य मस्जिदों पर ईद की नमाज पढ़ने के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिताम आदित्य अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीसलपुर परियोजना, देवली को जामा मस्जिद बड़ा कुआ टॉक, राहुल सैनी उपखंड अधिकारी टॉक को इंदगाह बहरी, सहायक कलेक्टर निवाई सरिता मल्होत्रा को जामा मस्जिद काफला बाजार, सहायक कलेक्टर टॉक अनिता खटौक को छावनी चौराहा मस्जिद एवं टॉक तहसीलदार रामधन गुर्जर को जामा मस्जिद पुरानी टॉक का ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

महरडा संयोजक-जयराम सहसंयोजक

श्रीमामधोपुर, (निर्स)। भाजपा राजस्थान के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2024 हेतु भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के विधानसभा संयोजकों व सह संयोजकों की नियुक्ति की है। सीकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए श्रीमामधोपुर विधानसभा एससी मोर्चा संयोजक पद पर रामावतार महरडा व सह संयोजक पद पर जयराम नाथसर को मनोनित किया गया है।

खाचरियावास ने मोहन सिंधी की मां को एक लाख दिये

जयपुर। जयपुर शहर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को मृतक मोहनलाल सिंधी के परिवार वालों से मिलकर नाहरी का नाका व्यापार मंडल के व्यापारियों की मदद से 1 लाख रुपए का सहायता चेक मृतक मोहनलाल सिंधी की मां को दिया। खाचरियावास ने मोहनलाल सिंधी की शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब डेले वाले मोहन सिंधी जो चार बहनों में अकेला भाई था उसकी क्रिकेट बेट से मार-मार कर हत्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुरक्षा अधिकारी के बेटे ने कर दी। जिस दर्दनाक ढंग से बेवजह डेले वाले मोहनलाल सिंधी को मार दिया गया इसके बावजूद भाजपा सरकार का कोई भी प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री ने अभी तक मोहन सिंधी के परिवार से उसकी मां बहन की मुश्किल नहीं ली। मृतक मोहन सिंधी की मां और बहनों ने मुझे बताया हमें उसकी लाश तक नहीं देखने दी और जबकि पुलिस ने उसका दाह संस्कार करवा दिया।

देरी से पहुंचने पर परीक्षार्थियों को नहीं मिला प्रवेश

चाकसू, (निर्स)। टॉक रोड स्थित मानव पीजी कॉलेज के परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे में परीक्षार्थियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को समझाइश करनी पड़ी। हंगामा परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचने के कारण कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने की वजह से हुआ। शुरू में पुलिस के समझाने पर भी परीक्षार्थी सड़क पर जमे रहे जिससे कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई बाद में किसी तरह उन्हें हटाया गया। जिससे वाहन चालकों को राहत मिली।

परीक्षा से वंचित हुए परीक्षार्थियों तथा उनके अभिभावकों ने बताया वे लोग परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए

कृषि मंडी में आज नहीं होगी जौ की निलामी

श्रीमामधोपुर, (निर्स)। कृषि उपज मंडी क वर्ग व्यापार संघ श्रीमामधोपुर के मंत्री प्रकाश जैन ने बताया कि क्षेत्र के समस्त किसान साथियों व कृषि उपज मण्डी व्यापार से सम्बन्धित आम जनों को सूचित किया जाता है कि मण्डी प्रांगण में जौ की आवक का प्रसार अधिक होने व विक्रय किये गये माल का समुचित उठाव नहीं होने के कारण कृषि उपज मंडी में आने वाले माल के उतारने के लिए पहले 1 दिन का अवकाश रखने के बावजूद माल की आवक अधिक रहने व मण्डी में स्थान नहीं होने के कारण खरीददार बन्धुओं ने भी माल उठाने के लिए मण्डी में एक दिन और अवकाश रखने का आग्रह किया है। उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार कर क वर्ग व्यापार संघ ने 6 अप्रैल शनिवार को मण्डी में माल उठाने के लिए मजदूरों को सहूलियत हो इस विचार से जौ की निलामी नहीं करने का निर्णय लिया है।

नरेन्द्र छीपी, मधुर गोयल व सचिन गुर्जर ने किया स्वैच्छिक रक्तदान

कोटपुतली, (निर्स)। जनसेवक मुकेश गोयल की पहल पर मानवता की सेवार्थ चल रहे सख्त रक्तदान का कार्यक्रम रक्तमणि अभियान लगातार जारी है। रक्तमणि अभियान में प्रतिदिन

रक्तमणि कार्यक्रम 4026 दिनों से लगातार जारी

एक या आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक युवक युवतियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया जाता है तथा रक्तदाता के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु उसे रक्तमणि का नाम प्रदान किया जाता है।

रक्तमणि की इस यात्रा में हजारों युवित रक्त एकत्र हुआ। जिससे पीड़ित, असहाय एवं जरूरतमंद मरीजों को मदद मिल रही है। गुरुवार को राजकीय बीडीएम ब्लड बैंक कोटपुतली में नरेन्द्र छीपी पुत्र रामावतार छीपी निवासी ग्राम बासकरनाथ बासपुर, मधुर गोयल पुत्र मुकेश गोयल निवासी मोहल्ला सराय व सचिन गुर्जर पुत्र हनुमान गुर्जर निवासी ग्राम पनियाला ने स्वैच्छिक



परीक्षार्थियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को समझाइश करनी पड़ी।

पंक्ति में खड़े थे, मगर प्रातः 6.40 बजे मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया

गया, जिससे परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो गए। इधर, मानव पीजी

कॉलेज निदेशक विकेश खोलिया ने बताया कि ने बताया शुक्रवार को

ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण, यातायात शुरू

राजगढ़, (निर्स)। राजगढ़-बांदीकुई मार्ग पर 2 वर्ष से आरोबी (रेलवे ओवर ब्रिज) निर्माण के चलते यातायात बंद होने से परेशान लोगों के लिए यातायात शुरू होने से राहत भरी खबर है। आरोबी पर डामरीकरण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद डिजाइन का कार्य अंतिम चरण में है। इधर नवनिर्मित ओवर ब्रिज पर यातायात शुरू होने के साथ ओवर ब्रिज को देखने वालों का ताता लगा हुआ है।

करीब 2 वर्ष से बांदीकुई मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण के कारण बंद पड़े यातायात के खुलने से राजगढ़ क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे। लगभग निर्धारित समय अवाधि में ओवर ब्रिज का कार्य लोगों में खुशी का आल्ला है। विदित रहे की राजगढ़ बांदीकुई मार्ग पर गेट नंबर 142 औद्योगिक क्षेत्र के समीप करीब 39 करोड़ की लागत से प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज का शिलान्यास 12 दिसंबर 2021 को हुआ।

पुनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी हिसार की ओर से रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य



ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण होने से राजगढ़वासियों में खुशी की लहर है।

नियमित रूप से चला। 9 फरवरी को नई तकनीकी बोस्टिंग ओवर ब्रिज रेलवे

लाइन पर स्थापित किया गया। इसके बाद त्वरित गति से निर्माण कार्य के

सैंटर के बाहर किया हंगामा, विरोध में सड़क भी जाम

महाविद्यालय में प्रातः 7 बजे से बीए फाइनल के एग्जाम थे जिसमें परीक्षार्थी को निश्चित टाइम से 20 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर आना होता है। इसके बाद में गेट को बंद कर दिया जाता है जो परीक्षार्थी 6.40 तक परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे उन सबको प्रवेश दिया गया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार इसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है जो परीक्षार्थी निर्धारित अवाधि के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया।

सार-समाचार विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सम्मानित



बौली-बामनवास, (निर्स)। सवाई माधोपुर जिले के उपखंड बौली के विद्युत विभाग द्वारा बकाया राशि वसूली अभियान के तहत प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भरतपुर संभागीय मुख्य अभियंता उमेश गुप्ता जयपुर डिस्काम, अशोक बिजोटियरी अधीक्षण अभियंता सवाई माधोपुर व लेखा अधिकारी महेंद्र सोनी के निर्देश पर अधिशासी अभियंता नवीन चंद्र भंडारी जयपुर डिस्काम बौली ने सवाई माधोपुर जिले में बकाया राशि वसूली अभियान के तहत प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सहायक अभियंता कार्यालय बौली के अधिकारी व कर्मचारियों को साफा, माला पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र व शौल्ड देकर सम्मानित किया है। सम्मानित होने वालों में नरेंद्र कुमार बजाड सहायक अभियंता, दीपक विजय कनिष्ठ अभियंता, हरिओम सिंह इंजीनियरिंग सुपरवाइजर, चंद्र कंवर वाणिज्यिक सहायक प्रथम, रेणुकोली सहायक द्वितीय, सीताराम वैष्णव तकनिशियन, नैनु वैष्णव एफआरटी टीम सहित 51 अधिकारी व कर्मचारी शामिल है।

खुदा की बारगाह में झुके सैकड़ों शीश

देवली (निर्स)। यहां पवित्र माह रमजान के आखिरी जुम्मे जुमा तुल विदा की नमाज में सैकड़ों शीश खुदा की बारगाह में झुके। नमाज से पूर्व शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम नज्म इफितखार साहब ने शीला बयान दिया। नमाजे जुमा बाद हुआ पे खेर की गई जिसमें वतन की खुशहाली, तरक्की, अमन चैन आपसी भाईचारा सौहार्द एवं अच्छी वर्षा और अमन शुक्रन की कामना की।

मां शाकंभरी का चित्र भेंट किया



संभलझील, (निर्स)। श्री अग्रवाल परमार्थ सेवा समिति, जयपुर के पदाधिकारियों की ओर से षष्ठम् अग्रवाल वैवाहिक युवक-युवती परिचय सम्मेलन के लिए सांभर अग्रवाल समाज के लोगों से संपर्क किया। आगामी 24 मई को आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलन को सफल बनाने हेतु भी चर्चा की गई। समाज से अपेक्षा की गई के अपने परिचितों का बायोडाटा तैयार कर भिजवाएं, ताकि युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए प्रक्रिया पूरी हो सके। अग्रसेन महाराजा की धर्मशाला में आयोजित बैठक में सांभर समाज जयपुर की लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सांभर समाज की ओर से जयपुर से आई पदाधिकारियों को मां शाकंभरी का चित्र भेंट कर वैवाहिक सम्मेलन को सफल बनाने हेतु भी अरदास की गई। इस मौके पर अशोक गुप्ता, जुगल किशोर दायमा, सुशील गुप्ता, मनोज अग्रवाल सहित अन्य को मौजूदगी रही।

जिला स्तरीय सम्मान समारोह कल

श्रीमामधोपुर, (निर्स)। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के तत्त्वधान में जिला सीकर में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का जिला स्तरीय सम्मान समारोह विचार 7 अप्रैल को प्रातः 10 बजे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (इंग्लिश मीडियम) श्रीमामधोपुर के विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के सचिव वासुदेव शर्मा व कोषाध्यक्ष विनोद ने बताया कि सीकर जिले के 126 विद्यालय में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में कुल 9333 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें 28 विद्यालय ऐसे थे जिनके संस्था प्रधानों ने अपने विद्यालय के 100 से अधिक छात्रों को परीक्षा दिलवाई। कक्षा 5 से 12 तक कुल 96 विद्यार्थियों का सम्मान कर उत्साहवर्द्धन किया जाएगा। इनमें 24 छात्रों का जिला स्तरीय एवं 72 छात्रों को ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन 28 संस्था प्रधानों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने विद्यालय के एक सौ से अधिक छात्रों को परीक्षा दिलवाई थी।

बुजुर्ग व दिव्यांग वोटर्स के लिये घर-घर पहुंची पोलिंग पार्टी

85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं व मतदान केन्द्र तक पहुंच पाने में असक्षम दिव्यांग वोटर्स को होम वोटर्स की सुविधा मिली।

कोटपुतली, (निर्स)। निर्वाचन विभाग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत शुक्रवार को पंजीकृत होम वोटर्स के घर-घर जाकर वोट डलवाये गये। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं व मतदान केन्द्र तक पहुंच पाने में असक्षम दिव्यांग वोटर्स को होम वोटर्स की सुविधा प्रदान की है। इसी क्रम में निर्वाचन विभाग की 11 टीमों ने कोटपुतली विधानसभा में पंजीकृत होम वोटर्स के घर पहुंचकर पूर्णतया: गोपीनीयता बरतते हुये वोट डलवाये। उप निर्वाचन अधिकारी एसडीएम बुजेश चौधरी ने बताया कि कोटपुतली विधानसभा में कुल 124

बुजुर्ग व दिव्यांग वोटर्स के लिये घर-घर पहुंची पोलिंग पार्टी



मां शाकंभरी का चित्र भेंट किया

कोटपुतली, (निर्स)। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को टॉक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवारों के द्वारा 11 नामांकन दाखिल किये गए। सांख्यिकी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अशोक कुमार बंसोवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 में टॉक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट के

नामांकन के अंतिम दिन 11 नामांकन दाखिल

टॉक, (निर्स)। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को टॉक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवारों के द्वारा 11 नामांकन दाखिल किये गए।

सांख्यिकी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अशोक कुमार बंसोवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 में टॉक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट के आलाकमान ने अलायंस की घोषणा नहीं कि इसलिए वहां पर उम्मीदवार उतारा गया है। आगे की रणनीति भी पार्टी आलाकमान तय करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमने मिलकर तय किया है। जिसके लिए पार्टी आलाकमान ने एनओसी दी है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर से अर्जुन बामनिया और अरविंद डामोर टिकट की दौड़ में शामिल थे। अर्जुन बामनिया थोड़ा दूर थे। जो तीन बजे तक पहुंच नहीं पाते, तो हमें प्रत्याशी तो उतारना ही था, इसलिए अरविंद डामोर ने पचा भरा। अर्जुन बामनिया के समर्थकों और उनके बेटे के बाप प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल होने के

डोटासरा ने बताई बांसवाड़ा से बामणिया के नामांकन नहीं करने की असली वजह

जयपुर, (निर्स)। बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा में नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार को एन मोंके पर अर्जुन बामनिया को प्रत्याशी बनाना लौकिक उनका नामांकन दाखिल नहीं करना। फिर बामनिया के स्थान पर अरविंद डामोर की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने की सच्चाई ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पदा उठाते हुए कहा कि पार्टी ने अर्जुन बामनिया को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वे दूर थे और 3 बजे से पहले बांसवाड़ा नहीं पहुंच पाने की स्थिति में नामांकन से वंचित रह सकते थे। इसलिए अरविंद डामोर को नामांकन भरवाया गया।

सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट कार्यशाला में डोटासरा ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हो रही चोरी और सीनाजोरी

गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यलय में मीडिया से बात करते हुए बांसवाड़ा-डूंगरपुर सीट पर बाप से गठबंधन की संभावना पर कहा कि इसका फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। पार्टी

बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में निर्देश दिये

दूदू, (निर्स)। जल जीवन मिशन एवं जल स्वावलंबन योजना के संबंध में समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर हनुमान मल ड।का की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ड।का ने जिले में जल जीवन मिशन की प्रगति, सक्रिय नल

कनेक्शनों की स्थिति, ग्राम पंचायतों द्वारा हर घर नल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया एवं जिले के सरकारी स्कूलों व आंगनवाडी केंद्रों में नल कनेक्शन सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 90 प्रतिशत से अधिक नल कनेक्शन वाले


गांवों को शत प्रतिशत करने, जिले की नल कनेक्शन से छूटी हुई सरकारी स्कूलों व आंगनवाडी केंद्रों में नल कनेक्शन करने के निर्देश दिए तथा क्रियान्वयन सहयोगी संस्था के कार्यो की समीक्षा कर शीघ्र हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया।

सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ने मंच साझा नहीं किया। इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सुमित भासरा की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसान परेशान हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चोरी और सीनाजोरी का काम हो रहा है। भाजपा बाबा साहेब के बनाए संविधान को खत्म करना चाह रही है। इन मुद्दों पर सोशल मीडिया पर मुखरता से भाजपा पर प्रहार किया जाना चाहिए।

सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ने मंच साझा नहीं किया। इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सुमित भासरा की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसान परेशान हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चोरी और सीनाजोरी का काम हो रहा है। भाजपा बाबा साहेब के बनाए संविधान को खत्म करना चाह रही है। इन मुद्दों पर सोशल मीडिया पर मुखरता से भाजपा पर प्रहार किया जाना चाहिए।

साथ ही कांग्रेस छोड़कर जाने वाले और कांग्रेस में आने वाले नेताओं को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार का भी जवाब देने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ के प्रचारक जल्द बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा कि 400 पार सीटों की बात करने वाले 200 पर ही अटक जाएंगे। ये लोग केवल मनोवैज्ञानिक लडाई लडना चाहते हैं। जूली ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर नरेंद्र मोदी दो बार प्रधानमंत्री बने हैं। आज हम इनके फेक कंटेंट का तत्काल जवाब देने लगे हैं। ऐसे में अब इनके फेक कंटेंट और वीडियो भी कम होने लगे हैं।

मतदाता होम वोटिंग के लिये पंजीकृत हो। इनमें से 120 मतदाताओं ने अपने वोट डाले। जिसमें 03 मतदाता अनुपलब्ध रहे एवं 01 मतदाता की मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग द्वारा आगामी चुनाव के लिये कोटपुतली में 10 महिला मतदान केन्द्र, 08 युवा मतदान केन्द्र, 01 दिव्यांगजन मतदान केन्द्र व 02 आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। कोटपुतली विधानसभा के 224 मतदान केन्द्रों पर 01 लाख 21 हजार 285 पुरुष व 01 लाख 06 हजार 492 महिला एवं 01 थर्ड जेंडर वोटर को मिलाकर कुल 02 लाख 27 हजार 778 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिये 02 पोलिंग बूथ रिजर्व भी रखे गये हैं।



दुनिया का कोई खिलाड़ी हालात को कोहली से बेहतर नहीं समझ सकता। कोहली शानदार खिलाड़ी है। वह हालात को बखूबी समझकर उसके अनुरूप खेलता है और इस मामले में दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है।' - स्टीव स्मिथ

स्टार स्पॉटर्स की कमेंट्री टीम के सदस्य, विराट कोहली की प्रशंसा करते हुए।



खेल जगत

आज का खिलाड़ी



टी-20 टीम के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव रविवार को बानखेड़े में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस टीम से जुड़ेंगे। हालांकि उनके फिटनेस की पुष्टि नहीं हो पाई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूर्यकुमार यादव शुक्रवार को मुंबई इंडियंस टीम से जुड़ेंगे।

सूर्यकुमार

राष्ट्रदूत जयपुर, 6 अप्रैल, 2024

7

क्या आप जानते हैं?... प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम है। लारा ने 1994 में वारविकशायर की तरफ से डरबन के खिलाफ 501 रन की नाबाद पारी खेली।

हैदराबाद की होमग्राउंड पर लगातार दूसरी जीत

चेन्नई को छह विकेट से हराया



हैदराबाद, 5 अप्रैल। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग-2024 में अपने होमग्राउंड पर लगातार दूसरी मुकाबला जीत लिया है। टीम ने सीजन के 18वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को 6 विकेट से हराया। इस जीत से हैदराबाद की टीम पाइंट्स टेबल के 5वें नंबर पर आ गई है। वहीं, चेन्नई तीसरे नंबर पर बरकरार है।

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरूवार को हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 165 रन का स्कोर बनाया। 166 रन का टारगेट हैदराबाद ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। टीम के पूर्व कप्तान एडेन मार्करम ने 36 बॉल पर 50 रन बनाए। इम्पैक्ट प्लेयर

ट्रैविस हेड 31 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने 12 बॉल पर 37 रन की विस्फोटक पारी खेली। चेन्नई से मोइन अली ने 2 विकेट लिए। शिवम दुबे ने 24 बॉल पर 45 रन की पारी खेली, जबकि अर्जुन रघुने ने 35 रन का योगदान दिया। आखिर में रवींद्र जडेजा ने नाबाद 31 रन जुटाए। हैदराबाद से

धुनेश्वर कुमार, टी नटराजन, पैट कर्मिस, शाहबाज अहमद और जयदेव उनादकट को एक-एक विकेट मिला।

नीतीश कुमार ने 19वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर की पहली बॉल पर छक्का जमाते हुए हैदराबाद को 6 विकेट की जीत दिला दी है। नीतीश 8 और हेनरिक क्लामन 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। 17वें ओवर में हैदराबाद ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 151 रन रहा। यहां से टीम को 18 बॉल पर 15 रन बनाने हैं। मोइन अली ने 16वें ओवर में दूसरा विकेट लिया। उन्होंने इस बार शाहबाज अहमद को किया। शाहबाज ने 19 बॉल पर 18 रन बनाए। इस पारी में वह एक ही सिक्स लगा सके। मोइन ने इससे पहले एडेन मार्करम को भी किया था।

हैदराबाद के पूर्व कप्तान एडेन मार्करम को मोइन अली ने पवेलियन भेजा। मोइन ने मार्करम को 14वें ओवर में किया। मार्करम ने 36 बॉल पर 50 रन बनाए, इस पारी में 4 चौके और एक सिक्स शामिल रहा।

10वें ओवर में हैदराबाद को दूसरा झटका लगा। महीश तीक्षणा की चौथी बॉल पर ट्रैविड हेड कैच आउट हुए। उन्हें रचिन खीत्र ने कैच किया। इस ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 107/2 रहा। 9वें ओवर में हैदराबाद ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी ओवर में हेड ओर मार्करम ने फिफ्टी पार्टनरशिप भी पूरी की।



ऑस्ट्रेलिया की चुनौती के लिये तैयार भारतीय हॉकी टीम

पर्थ, 5 अप्रैल। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिये शनिवार से यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला में उम्दा प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी। इस श्रृंखला से भारत को पेरिस ओलंपिक से पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को आंकने का मौका मिलेगा। मुख्य कोच क्रेग फ्लूटोन ने कहा, "पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिये यह श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना है और उन

पहलुओं का पता करना है जिनमें सुधार की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "हमारा फोकस अपनी रणनीति पर प्रभावी अमल करके आस्ट्रेलिया की चुनौती का माकूल जवाब देने पर होगा।" भारत ने आखिरी बाद 2014 में विदेश में टेस्ट श्रृंखला जीती थी। फरवरी में एफआईएफ प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। भारत और लीग में धुनेश्वर ने चार में से तीन मैच जीते और राउकरेला में अपराजेय रही। आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे दोनों मैचों में पराजय मिली। दोनों टीमों ओलंपिक में एक

ही गुप में है लिहाजा टेस्ट श्रृंखला के जरिये दोनों को एक दूसरे को आंकने का मौका मिलेगा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "हम इस चुनौती के लिये तैयार हैं। हमें पता है कि आस्ट्रेलिया कठिन प्रतिद्वंद्वी है लेकिन हमें अपनी क्षमता और तैयारियों पर भरोसा है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इस श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करना नहीं बल्कि एक इकाई के रूप में खुद को निखारना भी है।" भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 2013 से अब तक 43 मैच हुए हैं जिनमें से 28 आस्ट्रेलिया ने और आठ भारत ने जीते जबकि सात मैच ड्रा रहे। मैच दोपहर दो बजे से शुरू होगा।

पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराया

अहमदाबाद, 5 अप्रैल। शशांक सिंह नाबाद 61 रन और आशुतोष शर्मा 31 रनों ने आखिरी ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को एक गेंद शेष रहते गुजरात टाइटंस पर तीन विकेट से जीत दिला दी है। पंजाब की चार मैचों में यह दूसरी जीत है।

200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत खराब रही। उमेश यादव ने दूसरे ही ओवर में कप्तान शिखर धवन एक रन को बोल्ल कर पंजाब को पहला झटका दिया। उसके बाद छठे ओवर में जॉनी बेयरस्टो 13 गेंदों में चार चौकों की मदद से 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गये। उन्हें नूर अहमद ने बोल्ल आउट किया।

प्रभसिंघर सिंह ने 24 गेंदों में पांच चौके और एक छक्का लगाकर 35 रन बनाये। सैम करण पांच रन, सिकंदर रजा 15 रन और जितेश शर्मा 16 रन बनाकर आउट हुये। शशांक सिंह ने 29 गेंदों में छह चौके और चार छक्कों की मदद से नाबाद 61 जुटाये और आशुतोष शर्मा 17 गेंदों में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाये।

हरप्रीत बराड़ एक रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब ने 19.5 ओवर में सात विकेट पर 200 रन बनाकर तीन विकेट से मुकाबला जीत लिया। गुजरात टाइटंस की ओर से नूर अहमद ने दो विकेट लिये। अजमतउल्लाह उमरजई, उमेश यादव, राशिद खान, दर्शन नालकंडे और मोहित शर्मा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले शुभमन गिल नाबाद 89 रनों की कप्तान पारी के दम पर गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य दिया था।

आज यहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा 11 रन का विकेट गवां दिया। इसके बाद केन विलियमसन 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गये। साई सुदर्शन ने 19 गेंदों में छह चौकों की मदद से 33 रन बनाये। विजय शंकर आठ रन बनाकर आउट हुये। शुभमन गिल ने 48 गेंदों में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 89 रनों की पारी खेली।

दिल्ली कैपिटल्स को झटका कुलदीप यादव हो गए हैं चोटिल

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 'ग्रेइन' चोट से उबर रहे हैं और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स टीम प्रबंधन द्वारा एहतियात के तौर पर मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आराम की सलाह दी गयी है। बायें हाथ के स्पिनर कुलदीप को दिल्ली कैपिटल्स के जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सत्र के दूसरे मैच में चोट लग गयी थी जिसमें टीम को हार का सामना करना पड़ा था।

इससे इस 29 वर्षीय खिलाड़ी को अगले मुकाबलों के लिए बाहर रहने के लिए बाध्य बनाया गया है। कुलदीप तेज गेंदबाज शशांत शर्मा ने अंतिम एकादश में वापसी की। आईपीएल के एक सूत्र से जब कुलदीप की हालत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पीटीआई से कहा, "उन्हें मैच फिट होने के लिए कुछ समय लगेगा।" कुलदीप केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी हैं और टी20 विश्व कप के अतिरिक्त वे तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) की खेल विज्ञान और चिकित्सा



टीम की सलाह उनकी चोट और 'रिहैब' प्रबंधन में अहम होगी।

आईपीएल की फ्रेंचाइजी के लिए भारतीय खिलाड़ी की चोट और चोट संबंधित चिंताओं की एनसीए को जानकारी देनी अनिवार्य है। कुलदीप हालांकि अपना मुकाबलों के लिए टीम के साथ यात्रा कर रहे

आईओए में गतिरोध जारी, कार्यकारी परिषद के नौ सदस्यों ने अनधिकृत व्यक्तिओं के प्रवेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) में जारी अंतकलह ने आज नया मोड़ ले लिया जब इसकी कार्यकारी परिषद के नौ सदस्यों ने अनधिकृत व्यक्तियों को मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने का नोटिस जारी किया। यह नोटिस कार्यकारी परिषद के सदस्यों की बैठक के बाद आईओए कार्यालय पर लगाया गया। आईओए अध्यक्ष पी टी उषा और कार्यकारी परिषद के अधिकांश सदस्यों की छह जनवरी को सीईओ पद पर रघुराम अय्यर की नियुक्ति के बाद से ठनी हुई है। अय्यर पहले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सीईओ रह चुके हैं। नोटिस पर कार्यकारी परिषद के नौ सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिसमें

लिखा गया है, यह नोटिस यह बताने के लिये जारी किया गया है कि अनधिकृत व्यक्तियों का आईओए कार्यालय में प्रवेश निषेध है। नोटिस पर सीनियर उपाध्यक्ष अजय पटेल, उपाध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव और गगन नारांग, कोषाध्यक्ष सहदेव यादव और सदस्य डोला बर्नार्डी, हरपाल सिंह, योगेश्वर दत्त, अमिताभ शर्मा और भूपिंदर सिंह बाजवा के हस्ताक्षर हैं। समझा जाता है कि उषा अभी दिल्ली में नहीं है लेकिन उन्हें जानकारी दे दी गई है। अय्यर के सीईओ बनने के बाद कार्यकारी परिषद के 15 में से 12 सदस्यों ने आरोप लगाया था कि उषा ने उनकी नियुक्ति के लिये दबाव बनाया है जबकि उषा ने इन आरोपों को शर्मनाक बताया था।

हिसार में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, हॉकी तथा कुश्ती चयन स्पर्धा 8 अप्रैल से

चंडीगढ़, 5 अप्रैल। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित परीक्षण केंद्र, हिसार में चयन स्पर्धा परीक्षण कार्यक्रम आठ से 10 अप्रैल तक आयोजित किये जायेंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र हिसार के सहायक निदेशक निशांत कुमार मोर्य ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आठ अप्रैल को एथलेटिक्स तथा बॉक्सिंग, नौ अप्रैल को बॉक्सिंग तथा हॉकी एवं 10 अप्रैल को हॉकी तथा कुश्ती स्पर्धा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्पर्धा में नौ से 18 वर्ष की आयु के लड़के एवं लड़कियां दोनों भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय खेल प्राधिकरण खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए पूरे किए 1500 रन, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने



नई दिल्ली, 5 अप्रैल। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गुरुवार

को पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली। गिल का बतौर कप्तान ये पहला अर्धशतक था। गिल

ने 48 गेंदों में 89 रन की दमदार पारी खेली, जिसकी बदौलत गुजरात ने पंजाब किंग्स को खिलाफ 199 रन बनाए। आईपीएल 2024 से पहले शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस ने अपना नया कप्तान नियुक्त किया। स्टार फेवरीटी कपूरथला ने साई सोनीपत को 5-4 से और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरपीएफ दिल्ली को 6-5 से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। पूल ए में पहले मैच में रेल कोच फेक्ट्री कपूरथला और पंजाब इलेवन ने बेहतर खेल दिखाया। हाफ टाइम तक दोनों टीमों में 1-1 से बराबरी पर थी। इसके बाद रेल कोच फेक्ट्री ने यह मैच 6-3 से जीत लिया और लीग राउंड में तीन अंक हासिल कर लिए। आरसीएफ की ओर से इश्वर्या ने

विराट कोहली ने की आवेश के साथ मस्ती

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। विराट कोहली का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज आवेश खान के साथ मस्ती कर रहे हैं। इस दौरान वहां पर युजवेंद्र चहल भी मौजूद नजर आ रहे हैं। आईपीएल का अगला मुकाबला आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला है। यह मैच जयपुर में खेला जाएगा। इस वीडियो को देखते ही फैंस को पिछले सीजन का गिल गुजरात टाइटंस के लिए 1500 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके अलावा कोई बल्लेबाज गुजरात के लिए 1000 रन भी नहीं पूरा कर सका है। 37 पारियों में शुभमन गिल ने 148 के स्ट्राइक रेट से 1537 रन बनाए हैं। गिल को 2022 आईपीएल मेगा नीलामी से पहले प्री-नीलामी ड्राफ्ट में अहमदाबाद स्थित फ्रेंचाइजी द्वारा हार्दिक पंड्या और राशिद खान के साथ 8 करोड़ रुपये में खरीदा गया। शुभमन गिल ने 2022 में गुजरात टाइटंस की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

रेल कोच फेक्ट्री कपूरथला, हरियाणा एकादश, उत्तर रेलवे दिल्ली ने जीत हासिल की

जालंधर, 5 अप्रैल। पहले सुरजीत 5ए साइड महिला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के ग्रुप मुकाबलों में रेल कोच फेक्ट्री कपूरथला, हरियाणा एकादश, उत्तर रेलवे दिल्ली ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पंजाब के जालंधर में ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में सुरजीत हॉकी सोसाइटी द्वारा आयोजित किये जा रहे पहले सुरजीत 5ए साइड महिला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में रेल कोच फेक्ट्री कपूरथला ने पंजाब एकादश को 6-3 से हराया। एक अन्य मुकाबले में हरियाणा एकादश ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई पर 5-3 से जीत दर्ज की।

उत्तर रेलवे दिल्ली ने साई सोनीपत को 4-3 से, सीआरपीएफ दिल्ली ने सेंट्रल रेलवे मुंबई को 5-3 से हराया, रेल कोच फेक्ट्री कपूरथला ने साई सोनीपत को 5-4 से और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरपीएफ दिल्ली को 6-5 से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। पूल ए में पहले मैच में रेल कोच फेक्ट्री कपूरथला और पंजाब इलेवन ने बेहतर खेल दिखाया। हाफ टाइम तक दोनों टीमों में 1-1 से बराबरी पर थी। इसके बाद रेल कोच फेक्ट्री ने यह मैच 6-3 से जीत लिया और लीग राउंड में तीन अंक हासिल कर लिए। आरसीएफ की ओर से इश्वर्या ने

तीन गोल कर टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक बनाई जबकि पंजाब की ओर से सुखवीर कौर ने दो गोल किये। पूल बी के दूसरे मैच में हरियाणा इलेवन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई को 5-3 से हराकर तीन अंक हासिल किए। हाफ टाइम तक दोनों टीमों में 2-2 से बराबरी पर थी। हरियाणा के लिये ऊषा ने दो और यूनियन बैंक के लिये जीवन किशोरी ने दो गोल किये। तीसरे मैच में पूल ए में नॉर्दन रेलवे और साई सोनीपत ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद 4-3 से जीत दर्ज कर तीन अंक प्राप्त किये। हाफ टाइम तक दोनों टीमों में 1-1 से बराबरी पर थी। नॉर्दन रेलवे की

शिल्पी दिवस ने दो और साई सोनीपत की कप्तान डिंपल ने दो गोल किए। पूल बी के चौथे मैच में सीआरपीएफ दिल्ली ने सेंट्रल रेलवे मुंबई को 5-3 से हराकर तीन अंक हासिल किये। सीआरपीएफ की सुप्रिया मुंडू ने टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक बनाई जबकि सेंट्रल रेलवे मुंबई के लालरुटेपली ने दो गोल किये। पूल ए के पांचवें मैच में रेल कोच फेक्ट्री कपूरथला ने साई सोनीपत को 5-4 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की और कुल 6 अंक जुटाये। रेल कोच फेक्ट्री के लिये अंजलि गौतम ने दो गोल किये जबकि साई सोनीपत के लिये डिंपल

ने दो गोल किये। साई सोनीपत ने दो लीग मैच खेले और दोनों मैच हार गये। पूल बी के छठे मैच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ने सीआरपीएफ दिल्ली को 6-5 के अंतर से हराकर लीग राउंड में अपनी पहली जीत दर्ज की और तीन अंक हासिल किए। उद्घाटन समारोह में लखविंदर पाल सिंह खैरा, ओलंपियन राजेंद्र सिंह, राजबीर कौर, प्रवीण गुप्ता, नरिंदरपाल सिंह जज, रणबीर सिंह राणा टूट, एलआर नायर, गौरव अग्रवाल, नय्या सिंह गाखल, इकबाल सिंह संघु, सुरिंदर सिंह भापा, राजेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

नडाल ने मॉंटे कार्लो मास्टर्स से नाम लिया वापस

पेरिस, 5 अप्रैल। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने स्वास्थ्य कारणों से मॉंटे कार्लो मास्टर्स से नाम वापस ले लिया है। नडाल को इस घोषणा के बाद मई के आखिर में होने वाले 15वें फ्रेंच ओपन में उनके खेलने की संभावना भी कम दिख रही है। नडाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा, 'ये मेरे लिए बहुत कठिन समय है दुर्भाग्य से मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि मैं मॉंटे-कार्लो में नहीं खेलूंगा। मेरा शरीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा। भले ही मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और खेलने की पूरी इच्छा के साथ हर दिन अधिकतम प्रयास कर रहा हूं। उन टूर्नामेंटों में फिर से प्रतिस्पर्धा करू जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, सच्चाई यह है कि मैं आज नहीं खेल सकता। उन्होंने कहा, आपको अंदाजा नहीं है कि इन स्पर्धाओं में न खेल पाना मेरे लिए कितना कठिन है। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वह है स्थिति को स्वीकार करना और खेलने के लिए उत्साह और इच्छाशक्ति को बनाए

रखते हुए मुझे चीजों को बेहतर करने का अवसर मिला है। उल्लेखनीय है कि 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल को पिछली गर्मियों में कूल्हे की सर्जरी हुई थी और इस साल की शुरुआत में वापसी को उन्होंने केवल तीन मैच खेले हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जॉर्डन थॉम्पसन से हारने से पहले उन्होंने डोमिनिक थिएम और जेसन कुबलर को हराया। इसी दौरान कूल्हे की चोट उभरने के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटना पड़ा था। महादेव की शरण में पहुंचे पांड्या सोमनाथ, 5 अप्रैल। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 अब तक बुरा रहा है। आईपीएल के 17वें सीजन से पहले ही मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पंड्या के नया कप्तान नियुक्त किया। जिसके बाद से ही फैंस हार्दिक पंड्या को लगातार ट्रोल् कर रहे हैं।

